



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक 1934 (श0)
(सं0 पटना 597) पटना, शुक्रवार, 2 नवम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

1 नवम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-09/2012 खंड-9745—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-9260 दिनांक 30.07.2012 द्वारा अन्य सहित थरथरी व्यापार मंडल सहयोग समिति, नालन्दा एवं बिन्द व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड, नालन्दा का तथा प्राधिकार के अधिसूचना संख्या-9520 दिनांक 19.09.2012 द्वारा अन्य सहित परवलपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड, नालन्दा का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार नामांकन की तिथि क्रमशः दिनांक 20.08.2012 एवं 08.10.2012 निर्धारित की गयी थी।

2. जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त व्यापार मंडल सहयोग समितियों का चुनाव कोरम के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सका है। अतएव इन व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु प्राधिकार एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए निम्न शर्तों के अधीन निम्न रूप से निर्वाचन कार्यक्रम नियत करता है :-

(1)	अतिरिक्त नामांकन की तिथि एवं समय	07.11.2012 (बुधवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक
(2)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	08.11.2012 (गुरुवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(3)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	09.11.2012 (शुक्रवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक

(4)	मतदान, अगर आवश्यक हो	17.11.2012 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक
(5)	मतगणना	17.11.2012 मतदान समाप्ति के पश्चात्

शर्त- “नयी उपविधि” से शासित व्यापार मंडलों के मामले में अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की अनुपस्थिति अथवा मतदाताओं की पर्याप्त संख्या नहीं होने की स्थिति में यदि प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का आरक्षण कोटि के अनुसार निर्वाचन संभव नहीं हो पाता है एवं निर्वाचन के फलस्वरूप कोरम पूरा नहीं हो पाता है, वैसी स्थिति में संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे दिनांक 05.11.2012 को 3 बजे अपराह्न तक प्राधिकार को सूचित कर देंगे।

3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निदेशों के अधीन नामांकन पत्र का अतिरिक्त सेट दाखिल किये जाने पर रोक नहीं होगा।

4. संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने व्यापार मंडल सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। निर्वाचन के लिए पूर्व में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 07.11.2012 को अतिरिक्त नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उन्हें यह भी निदेशित है कि वे समिति के सभी सदस्यों के सूचनार्थ निर्वाचन कार्यक्रम को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 597-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>